

फुंनि आफदाव लानोगोनां समाइनि मोननैसो बिदिन्थि होनाय जाबाय, बिदि रोखोमनि समाइ सानफ्रोमबो थियारि खालामना फरायसाफोरखीं फरायहो

⇒ जॉ सानफ्रोमबो साखोन-सिखोन थगोन।
 ⇒ जॉ जानाय सिगां आखाइ सुगोन।
 ⇒ जॉ सानफ्रोमबो जानाय आदार आरो लॉनाय दे खोबग्राजॉं खोबथेना दोनगोन।
 ⇒ जॉ सानफ्रोमबो फरायसालि न' आरो न'नि सोरदिंथाइ फोसाबना दोनगोन।
 ⇒ जॉ सानफ्रोमबो दाखोरफोरखीं डाप्टबिन आरो दाखोर गारनाय हाखराव गारगोन।
 ⇒ जॉ सानफ्रोमबो हराव मुसि सॉननै उन्दुगोन।
 ⇒ जॉ सानफ्रोमबो जेराव-मेराव मुजुदे गारा।
 ⇒ जॉ फरायसालिहम साखोन-सिखोन फैगोन। फरायसालिखीं समयनाथै लाखिगोन। लोगोफोरजॉं लोगोआव गोरौबलायना थगोन। फरायसालिनि नेम खान्थि गनायना सोलिगोन।

⇒ बेयो जॉनि फरायसालि। फरायसालिया जॉनि आंगो। जॉ सानफ्रोमबो फरायसालियाव फैगोन। फोरॉगिनि आरो गेदेमाफोरखीं जॉ मान खालामगोन।
 ⇒ जॉ फरायसाफोरा हारदिनि इउननि हारुंसा। जॉ हारदिनि मान लाखिने थाखाय नाजगोन।
 ⇒ बिमा-बिफा, फोरॉगिनि आरो गेदेमाफोरखीं जॉ मान खालामगोन।

फरायसालियाव फरायसाफोरनि गेजेराव खान्थि सोल्लोथाइ सोल्लोनारनि थाखाय बिथोनफोर

फरायसाफोरनि गेजेराव खान्थि सोल्लोथाइ आरो बेसेन मोन्दनाय गोसो फोजाखॉनी हानायवा फोरॉगिनिफोरनि मावने गोनां हाबाफोरखीं गाहायाव होनाय जाबाय-

- फुंनि जथुमाव 5 मिनिट समखीं खान्थि सोल्लोथाइ आरो बेसेन मोन्दनाय सोल्लोथाइनि थाखाय दोनखगोन। बेनेनो 1 मिनिट समखीं थियान खालामहॉनांगोन। 4 मिनिटनि समखीं गेदेमा सुवुंफोरनि बिबुं बेसेन फरायथिनाथै होगोन (फोरॉगिनि आरो फरायसाफोरा लिन्ननै लाबोगोन)
- माबलाबा समाव थियै बयबो खालामहॉनांगोन। बेनि उनाव फरायसाफोरखीं गाव गावनि गोसो सिंनि बाध्रा फोरमायने होगोन।
- रावनि पिरियदाव दानसेयाव खेबसे फराय बिजाबनिफराय खान्थि आरो बेसेन मोन्दं रॉनायनि ज'थाइ सल' सायख'ना दिहुन्नानै फरायसाफोरनो फोरमायगोन। फराय बिजाबनि गैथि मिथिगाजॉं सोमोन्दो थानाय सैयो, बाउनाय, गुबुननि मोजॉं मावनाय, मान होनाय, सिबिनाय, अननाय आरि बायदि गाहाम गुन बेरखां होनो हाग्रा सल' खोनासहॉगोन, जैरे- हरिचन्दनि सल', श्रवणनि बिफा-सिबिनाय, ईछपनि सल', सुबुं सल' बायदि। बेफोरनि अनगायैबो हाश्राबलाबो दानसेयाव सानसे गेदेमा सुबुं, बीर जोहोलाव, थुनलाइगिनि, आरिमुगिनि, आरिफोरनि जिउखॉरॉं आरो बिथॉमोनि मावनाय आरो बिहोमनि सोमोन्दै बुंनगोन।
- थॉखु जानाय-सोबनाय, फेग्रा बेसादफोरनि खहाखीं खालामनाय आरो बै बेसादफोरनिफराय गोजानाव थानांगो आरो बेफोरनिफराय जानो हाथाव थि खालामनो गिखंथाव बेरामफोरनि सांग्रॉथिनि बागै फोरमायना होगोन।
- दानसेयाव सानसे फोरॉगिनि दैदेननायाव बबेबा मोनसे जायगायाव जयै साफाइ हाबा मावहोगोन।
- फोरॉगिनि दैदेननायाव फरायसाफ्रा सोल्लोसालिनि बिथिनिफराय बबेबा मोनसे माहारियारि फसंथानाव ऑरॅनो सिबि गुदि हाबा मावगोन।
- फरायसाफोरा न'आव/गामियाव/गावनि ऑन्सोलाव सोरखा बैसोगोरा सुबुं एखा सोलेर बिथि उदाययै मानसि दइ'बला बिसोरखीं थावायनाय बेरायनायाव मदद होफाहोगोन। बै हाबानि थाखाय फोरॉगिरिया थाखो ख'थायव फरायसाफोरखीं बाध्रा सावरयनायनि राहा खालामगोन।
- फरायसाफोरखीं बिमा-बिफाखीं न'नि खामानिकोराव जैरे-मैगं बागानाव, बिबार बागानाव, दुब्लियाव, दै सारनाय, संनाय- खानवाय, सि सुधाबनाय बायदिवाव हेफाजाव होनो गोसो थुल्लुगाखॉहोगोन। बेनि अनगायैबो साफ्रोमबो फरायसाया गाव गावनि हाबाखीं मावकुंनयाव गोसो होगोन। फरायसाफोरनि फारफ्रोम दावगानायनि फोरमार्याथि बिलाइयाव सोर बिमा बिफाखीं मावादि हेफाजाव खालामनो लिन्ननै दोनगोन।
- आबहावा बिगियान आयदिनि गेजेरजॉं फोरॉगिरिया फरायसाफोरनो गाहाम आखल-आखु, सोल्लॉननै लानायखीं थि खालामगोन जैरे गिदिरिसिखीं मान होनाय, उन्दैसिखीं अननाय होनाय, गावनि दोहोनजॉं लोगोसे रन्थोआरि दोहोनजॉं सरैखा खालामनाय, फरायसालिनि हाबा-हुखायाव नेम मानिना सोलिनाय सिरिबायै थानाय, साखोन-सिखोनै थानाय, बायदि।
- संबिजिदाव थानाय गोरगोरिफोरनि बिबान गुदि मावनां हाबाफोरखीं गुदि खोलोबनि बांसिन फराय बिजाबनि सिंनि बिखं बिलाइफोरव होफानाय जादों। फोरॉगिरिया सम सम मोनफ्रोमबो बिथिनि सायाव फरायसाफोरजॉं सावरयनाथै बेफोरनि गोनांथिखीं मोन्दंहोगोन। गाहाइयै आबहावा आरो माहारि बिगियाननि पिरियदाव बेफोरनि बागै गुवारे सावरयगोन।
- बेनि अनगायैबो, माहारि बिगियाननि पिरियदाव गाहायाव होनाय आयदाफोरनि सायाव बोसोराव मोननै सावरयनायनि राहा लागोन-
 - भारतारि संबिजिदिनि गुदि आखुथाइफोर।
 - गुदि मोन्थाइ।
 - गुदि मावनां बिबान आरो हाबा।
 - गोरौबलायैनि गेजेराव खीसेथि, बायदि।

(बेनि थाखाय नांगो जायवेला जायगानिनो फुंखा सुबुंनि हेफाजाव लागोन।)

बेसेन मोनदाथि सोल्लोथाइ :-

कारिकुलामाव बायदि बायदि आयदानि जोहै बेसेन मिथिरॉनायखीं फोजाखांग्रा माखासे गुनफ्रा जाबाय-

| आइदा | बेसेन मोनदाथि |
|--------------------|--|
| राव | अननाय मोजॉमोन्नाय हादर अनफावरि, सहायसोमनाय, हेफाजाव होनो लुगैग्रा गोसो, गिराडि, बायदि। |
| समाज बिगियान | आंगो सानलायनाय, दैदेननायनि बिबान, समायनाथाइ मोन्दनाय, हायुडरि आरो गेजेर हायुडरि बुजिलायनाय, माहारियारि बिबान, हायुडरियै सांग्रॉथि, सहायसोम, मावनायखीं मावगोरॉं, बायदि। |
| बिगियान | आजव जाथाव सान्थी, समयना मोन्दंथि, आबुथि दाजावथाइ सान्नाय, नेम मानिना सोलिगोरॉं, बायदि। |
| सानखान्थि | गोसो हमाथानाय, फिसा दोन्थुमनाय, दिदोमथि बाहायगारलायि बायदि। |
| आरिमु आरो देहायारि | दैदेनरॉनाय गुन मोन्दंहानाय, हान्जायारि आबुथि, समयना मोन्दंथि सोल्लोथाइ साखोन-सिखोन, गाहाम-हुदा दाना लानाय, हाबा मावनाय फासं गोसो जानाय, हाबा मावनायखीं मानहोनाय, बायदि। |
| आबहावा सोल्लोथाइ | मिथिगाखीं अननाय-मोजॉमोन्नाय आरो बिबान मिथिरॉनाय, जिब जिबि आरो आबहावानि गेजेराव थानाय गाहाम सोमोन्दो, आबहावा सरैखा आरो रेखाथि, आबहावाखीं गाहामै बाहायनाय, जाइरि जाया थासारियावनो हाबा मावनो हानाय गोसो दानाय बायदि। |
| हाबा सोल्लोथाइ | दिहुनफावनाय गोसो दानाय, गुबुन गुबुन हाबानि फासं मान होनायनि गोसो, मावनाय-खाथिनायखीं मान होनाय, गावखीं फोथानाय, गावजॉं गाव हेफाजाव होनाय हान्जायारियै बुजिनाय, सहायसोमनाय गुन जौगाखॉहोनाय, । |

बोसोरारि मावथॉथिख

सोल्लोथाइयारि बोसोरा जाजेनाय लोगो मावने गोनां हाबाफोरखीं मावनांगी बादिथै मावकुंजोबनो जाहाये हायो बेनि थाखाय फरायसालि सामबलायग्रा आफदाद आगुआवनो बोसोरारि मावथॉथि थि खालामनानै लाखानाय जोबोर गोनांथार। हाबा-हुखाखीं मावनायजॉं लोगोसे सुमोनथाइ लानानै रेवसुं-लाइयाव सरैखा खालामनानै दोनगोन।

| हाबा | खानानै होनाय सम |
|---|--|
| साफाइ | सानफ्रोमबो 15 मिनिट |
| फुंनि ज'धुम | सानफ्रोमबो 15 मिनिट (नांगी बादिथै खानानै होखानाय समनि बांसिन लानो हागोन) |
| बिषं फुंनि गणवण आरो बिबार बागाननि खामनि | फासंथानाव सोरयै पिरियद फासं सोल्लोथाइफोरनि बागान आरो सानफ्रोमबो 30 मिनिट सम बिबार बागान खामनि फासं थारुव सोरयै सोरयै सोरयै हाबनाय बिबान लानेन। |
| जुमिया फालिनो गोनां सान फालिनार्यनि सान थि खालाम | मोनसे फालिनो गोनां सानखीं फालिनो थाखाय बराथारव मोनथाम पिरियदिनि समनि गोनांथि जायो होनानै थि जानो हायो। |
| थुनलाइ- हारिमुनि हाबाफारि लानाय (बाइयै मोन जि बिथिफोर जैरे - मेथाइ-गान, मोसानाय, फाव दिन्थिनाय, मुखा गाना फाव दिन्थिनाय, बाध्रा दानसेलायनाय, रनसाइ लिन्नार्यनि वादायलायनाय। हखॉब बुंनय, कुहर, खन्थाइ आबरायनाय, सोरजिगुदि लिन्नार्यनि लिन्नार, बाइदि बाइदि।) | मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि थाखाय बोसोराव खेबनै मोनथाम पिरियदै खुंनगोन। |
| बोसोरारि खारनाय थारनाय गेलैनाय | सान ड्रै (जोबथा सानखीं बान्था गननाय सम महरे फारि) |
| समाचारि हाबा | बोसोरसेयाव खेबनै मोनथाम पिरियदिनि समजॉं सम लानो हागोन। |
| काव बुल बुल/स्काउट-गाइडनि सोमोन्दै हाबा-हुखा | बोसोरसेयाव मोन 40 पिरियदिनि सम लानानै |
| थाबनि नायनो दावबायनाय/सोल्लोथाइयारि दावबायनाय/लावखार ऑखाम जानाय | सान 2 एबा 10 घन्टा |
| गेलीम बोधेदिनि बट / गोजॉं बोधेदिनि बट / फरायसालि नेजेरदि बट / गोबेन सोल्लोथाइनि बट / बेसेनथि बट। | 12 सान |

फरायसाफोर दावगानायनि रेबगाथि

फरायसालिनि मुं :-
 फरायसालिनि मुं :-
 थाखो :-

सोल्लोथाइ बोसोर-:

| सोल्लोथाइयारि बिथि | गावारि-समाजारि गुणफोरनि फोरमाव (बिबुंथि) |
|--------------------|--|
| आयव/खोन्थो | नेमजॉं सोलिगोरॉं |
| वि. फासं | बैसो जानायफोरखीं मान होनो रॉनाय |
| वि. फासं | उदायिफोरनो मान होनो रॉनाय |
| वि. फासं | सैथोजॉं सोलिगोरॉं रॉनाय |
| वि. फासं | अनुसासन |
| वि. फासं | समानि बेसेन मिथिरॉनाय |
| वि. फासं | अनसायनाय गोसो |
| वि. फासं | हेफाजाव |
| वि. फासं | समानि बाहाम लाफोरनाय |
| वि. फासं | गोसो होथाबनो रॉनाय |
| वि. फासं | गोसो जानाय |
| वि. फासं | (क) गावनि फारसे, लोगोफोरनि फारसे |
| वि. फासं | (ख) फोरॉगिनि फारसे |
| वि. फासं | आबेग सामलायहानाय |
| वि. फासं | दैदेननायनि मोन्दाथि हाबनाय/बेसेन मिथिनाय |
| वि. फासं | बायदि बायदि |

फोरॉगिनि बिबुंथि.....
 बिमा-बिफा/दिथागिनि मुंसाइ.....
 अन्ट'.....

थाखोफोरॉगिनि मुंसाइ.....
 गाहाइ फोरॉगिनि मुंसाइ.....

सानफ्रोमबोनि समनि संलाइ मडेल (थाखो सेनिक्राय थाखो दाइनसिम)

| सम | 9.00-9.15 | 9.15-10.00 | 10.00-10.40 | 10.40-10.50 | 10.50-11.30 | 11.30-12.10 | 12.10-12.45 | 12.45-1.25 | 1.25-2.05 | 2.05-2.45 | 2.45-3.25 | |
|-------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| सम | थाखो 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 2थि पिरियद 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान |
| मंग | थाखो 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 2थि पिरियद 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान |
| बुध | थाखो 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 2थि पिरियद 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान |
| बिष | थाखो 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 2थि पिरियद 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान |
| शुक्र | थाखो 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 2थि पिरियद 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान |
| सुनि | थाखो 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 1थि पिरियद 2थि सानखान्थि 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | 2थि पिरियद 3थि सानखान्थि 4थि सानखान्थि 5थि सानखान्थि 6थि सानखान्थि 7थि सानखान्थि 8थि सानखान्थि | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | निबि बिबान सायब बिबान | |

- ❖ सानफ्रोमबोनि समनि संलाइखीं फरायसालिनि फोरॉगिरिया आयदानि गोनांथि आरो दावगानायनि सायाव बिबा खालामनानै गोनांथि बादिथै थियारि खालामना लागोन।
- ❖ जुमिया हानाय गथ'थाफोरनि थाखाय फोरॉगिरिया सानफ्रोमबो सम फारिलाइफराय गावबागाननि खान्थु बादिथै सम दिहुनना लागोन।
- ❖ मोनफ्रोमबोनि समनि संलाइयाव थानाय साव:दे: सोल्लोथाइयै सायबि आरो देहायारि सोल्लोथाइखीं बुजायदों।
- ❖ जायफोर फरायसालिहम Telc Education/ICT नि गेजेरजॉं फोनांजावनाय जादों बैफोर फरायसालिया सम फारिलाइयाव गावबा गावनि खान्थु बादिथै Telc Education नि पिरियद सरजाबकरना लानांगोन।

बिमा-बिफा/दिथागिरिजॉं मा मा बिथिफोरनि सायाव सावरयगोन ?

- बिसोरनि फिसाफ्रा मा खालामनो मोजॉं मोनो एबा मा खालामनो गाजि मोनो ? - बेफोरनि सायाव सावरयगोन।
- बिसोरनि फिसाफ्रा मावनाय मोजॉं खामनि एबा गाजि खामनिफोरनि बागै (सायाव) फोरमायथिनांगोन। फिसाफोरनि हाफुंनय आरो जौगानाय थि थाखाय बिसोरनो होबानांगी हेफाजाबनि बाध्राफोरखीं बिसोरनो फोरमायनांगोन।
- फिसाफोरनि बबेबा बाध्रायथाव खामनि एबा बिसोर मावनो गजानाय हाबायाव थुल्लुगा होनो बिसोरखीं बोसेन होगोन।
- फरायसाफोरखीं मदद- हेफाजाव होनाय, मावनांगी हाबाखीं मावकुंनयनि बाध्रा मिथिहोनाय, गुबुनफोरनि फारसे मोजॉं मोननाय गोरौबनाय, गोसो जानाय। रव बाइदि बिथिफोरखीं बिमा-बिफा एबा दिथागिरिफोरजॉं सावरयगोन।
- गथ'साफोरखीं सोल्लोथाय हेफाजाव होनो थाखाय बिमा-बिफा एबा दिथागिरिफ्रा मा रोखोमै खामनि मावने हायो एबा बिसोर गाव गावनि फिसाफोरनि बबे बिथिफोरनि सायाव नोबोर होनांगोन- बेफोरनि सायाव रोखा रोखायै सावरयगोन।

सायबिखान्थि सोमोन्दै फोरॉगिनि बिबान आरो बिफाव

- फरायसा हान्जाखीं फला रनननै थाखो खथा आरो फरायसालि सोरदिंथाइ फोसाबहोनाय।
- सखोन-सिखोन आरो सायबिखान्थिनि सिइव मावफारि-फोरखीं सोर,मखल फालिनोय बेथी थि खालामनाय।
- फोरॉगिनि आरो फरायसालि सामलायग्रा आफदादि बोसेन बादिथै फरायसाफोरनि जहै फला रनननै लॉनाय दैनि फुंखा आरो हासुख'र-डिख'र'सालि मोजाहै लाखिनो जोधेन लनाय।
- फरायसालि जोधेन थि थाखाय मोननाय अनसुंथायनि रॉजो फरायसालि सामलायग्रा आफदादि जहै लॉनाय दैनि फुंखा आरो हासुख'र-डिख'र'सालि फहागनाय।
- फरायसाफोरा फालिनाय सायबिखान्थि सोमोन्दै मावफारिफोरखीं फोरॉगिनि जहै सानफ्रोमबो नोबोर होनाय।

सोल्लोथाइयारि फान्थामुथिनि सोमोन्दै नॉथॉमोनि बेसेनगोसा बिबुंथि / सुबुनफोरखीं गाहायाव होनाय फन नन्वरनि गेजेरजॉं जॉनो मिथिहोयो जेन।
हादरसायारि सोल्लोथाइ बिजिरसं आरो फोरॉगिनि गथुप : 0361-2382507
18003453525 ट'ए फि रं